

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024			घट - बढ़	
	2025			वर्ष	
	अप्रैल 26	अप्रैल 11	अप्रैल 25	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3532901	3750858	3760633	9775	227732
1.1 संचलन में नोट	3532891	3750841	3760619	9778	227728
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	11	16	14	-3	3
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	101	1	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना		0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	43	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1017716	909269	947351	38082	-70365
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8776	7845	8398	553	-378
2.6 अन्य बैंक	54971	52769	52864	95	-2106
2.7 अन्य	540839	463871	474487	10616	-66353
3 अन्य देयताएं	1742033	2316139	2331242	15103	589209
कुल देयताएं / आस्तियां	6897380	7500894	7575119	74225	677739
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4704782	4970772	4993343	22571	288560
2 सोना	462881	721972	720785	-1186	257904
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1356200	1617568	1680428	62860	324228
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	13284	36792	22324	-14467	9040
4.3 नाबार्ड	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	209301	24763	23088	-1675	-186213
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	143177	113558	119274	5716	-23903
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	5690	13405	13813	407	8123

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पुर्णानकनी वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	अप्रैल 25, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	5879208	688129	21671	1983	167068	19802	561953	50207
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	4960996	580663	22531	2168	110162	13106	295722	20962
1.2 स्वर्ण	720785	84365	-1186	-207	52623	6189	257904	28832
1.3 विशेष आहरण अधिकार	158817	18589	308	21	3528	420	8378	540
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	38610	4512	19	2	755	88	-51	-127

*अंतर, यदि कोई है, तो पुर्णानकनी वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

मई 02, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 951938 करोड़	2025													
	अप्रैल 19	अप्रैल 20	अप्रैल 21	अप्रैल 22	अप्रैल 23	अप्रैल 24	अप्रैल 25	अप्रैल 26	अप्रैल 27	अप्रैल 28	अप्रैल 29	अप्रैल 30	मई 01	मई 02
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	981190	980630	968567	982528	961529	949257	954371							
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	103.1	103.0	101.7	103.2	101.0	99.7	100.3							

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	अप्रैल 18, 2025 को बकाया	पखवाड़ा	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	346509	-4565	-1682	37095	50867	53720
1.2 बैंकों से उधार	105133	-620	-10343	-6842	134356	-66952
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	23925	860	2325	-5991	16295	-50852
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	22860857 (22802325)	-254836	278168	280256	2441585 (2335603)	2107463 (2154913)
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-1.1	1.4	1.2	13.3 (12.8)	10.2 (10.4)
2.1.1 मांग	2637202	-144032	18093	-60846	322930	175256
2.1.2 मीयादी	20223655	-110804	260074	341103	2118655	1932207
2.2 उधारियां	868605	-51991	-2604	-46643	316822	93267
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1018942	-2939	-40180	-42689	157792	121694
3 रिज़र्व बैंक से उधार	24763	-35268	-137377	-286703	48789	-60576
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	990981	-16781	23640	26692	109049	-53575
4.1 उपलब्ध नकदी	81713	4287	10888	-162	3026	-18608
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	909269	-21068	12753	26854	106023	-34967
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	238145	8163	-10311	22343	-8730	50129
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	22294	-10887	3887	-3544	-5158	6052
5.3 बैंकों को अग्रिम	40267	-1460	-905	763	8487	-7196
5.4 अन्य आस्तियां	71217	1894	-7981	3864	38200	-36226
6 निवेश	6692608 (6644842)	28217	41652	-5320	702725 (615421)	544397 (583935)
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.4	0.7	-0.1	12.9 (11.3)	8.9 (9.6)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6691992	28378	41491	-5306	702422	544891
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	616	-161	161	-14	303	-494
7 बैंक ऋण	18186759 (17774269)	-214574	59632	-57213	2632350 (2111531)	1694963 (1803291)
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-1.2	0.4	-0.3	19.0 (15.2)	10.3 (11.3)
7 क.1 खाद्य ऋण	32126	2769	-4991	-4406	-3202	14036
7 क.2 खाद्येतर ऋण	18154634	-217343	64623	-52808	2635552	1680927
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	17845126	-200026	43117	-64726	2575813	1667706
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	79493	-2857	4568	4530	23067	14458
7 ख.3 भुनाए गए	224770	-9844	11974	3710	41957	15438
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	14727	-1155	142	-395	-2184	-1827
7 ख.5 भुनाए गए	22644	-691	-168	-333	-6303	-812

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विलय के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2024	2025				
	अप्रैल 26	मार्च 28	अप्रैल 04	अप्रैल 11	अप्रैल 18	अप्रैल 25
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	4.37	..	4.35	..
..	..	..	(4.36)	..	(4.33)	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	78.01	..	77.95	..
..	..	..	(79.61)	..	(79.55)	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	30.32	..	-17.19	..
..	..	..	(29.41)	..	(-20.41)	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	28.70	..	29.14	..
..	..	..	(28.83)	..	(29.28)	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	-6.27	..	-1.89	..
..	..	..	(-6.27)	..	(-1.90)	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	6.25	6.25	6.00	6.00	6.00
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	6.00	6.00	5.75	5.75	5.75
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	6.50	6.50	6.25	6.25	6.25
बैंक दर	6.75	6.50	6.50	6.25	6.25	6.25
आधार दर	9.10/10.25	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.00/8.60	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.15
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/2.75	2.70/2.75
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	6.65	6.35	6.09	6.00	5.85	5.86
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.92	6.52	6.30	6.03	5.94	5.90
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.04	6.52	6.29	6.10	6.02	5.95
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.07	6.47	6.30	6.09	6.02	5.95
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	7.16	6.62	6.53	6.48	6.41	6.40
संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया®						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.34	85.58	85.23	86.14	85.57	85.58
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	89.43	92.32	94.34	97.11	97.26	97.12
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह	1.16	3.12	3.03	2.59	2.50	2.57
3-माह	1.26	2.56	2.54	2.31	2.26	2.34
6-माह	1.37	2.28	2.39	2.19	2.11	2.15

*प्रेस विज्ञापन संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बैंचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीकी डॉलर / भारतीय रुपया की हाज़िर दर तथा अन्य प्रमुख मद्रुओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया				निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26*		2024		2025	
	मार्च 21	अप्रैल 18	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27214355 (27273801)	27572145 (27630677)	-211765 (-213099)	-0.8 (-0.8)	322357	1.3	357790 (356876)	1.3 (1.3)	2470776	10.9	2418169 (2370720)	9.6 (9.4)
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3620845	3693751	43680	1.2	43979	1.3	72907	2.0	107768	3.2	239497	6.9
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	2781253	-144892	-5.0	19841	0.8	-58770	-2.1	324964	14.2	174523	6.7
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20643062 (20702508)	20993392 (21051924)	-111095 (-112429)	-0.5 (-0.5)	266722	1.4	350330 (349416)	1.7 (1.7)	2020000	11.9	1986752 (1939302)	10.5 (10.1)
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	110426	103750	542	0.5	-8184	-8.7	-6676	-6.0	18043	26.4	17398	20.1
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8135829 (8183590)	8575266 (8623032)	73954 (73953)	0.9 (0.9)	77027	1.0	439438 (439442)	5.4 (5.4)	423496	5.9	986223 (946685)	13.0 (12.3)
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1180870	1626509	49119		28416		445639		-198470		404880	
2.1.2 अन्य बैंक	6954959 (7002720)	6948757 (6996523)	24835 (24834)	0.4 (0.4)	48611	0.8	-6202 (-6197)	-0.1 (-0.1)	621967	10.8	581344 (541805)	9.1 (8.4)
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	18644339 (19065706)	18582399 (18994888)	-211628 (-215740)	-1.1 (-1.1)	57245	0.3	-61941 (-70818)	-0.3 (-0.4)	2117810	14.5	1853008 (1744679)	11.1 (10.1)
2.2.1 रिज़र्व बैंक	35823	19280	-2258		-3602		-16543		-10988		8475	
2.2.2 अन्य बैंक	18608516 (19029883)	18563119 (18975609)	-209370 (-213482)	-1.1 (-1.1)	60847	0.4	-45397 (-54274)	-0.2 (-0.3)	2128797	14.6	1844533 (1736204)	11.0 (10.1)
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5977361	6169394	90342	1.5	-46743	-0.8	192032	3.2	567028	11.4	648633	11.7
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36306	36632	0	0	0	0.0	326	0.9	3146	10.4	3200	9.6
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	5579480 (5989161)	5791545 (6193268)	164432 (161654)	2.9 (2.7)	-234827	-4.7	212065 (204107)	3.8 (3.4)	640704	15.7	1072895 (972478)	22.7 (18.6)
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2159098	2308158	102754	4.7	-37145	-2.1	149060	6.9	138267	8.6	555169	31.7

*: 21 मार्च 2025 से संबंधित।

नोट: कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया				निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26*		2024		2025	
	मार्च 28	अप्रैल 25	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4836336	4909644	48538	1.0	102794	2.2	73308	1.5	260161	5.8	175403	3.7
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3720468	3797251	9778	0.3	55062	1.6	76783	2.1	111240	3.2	230728	6.5
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	1003762	1008614	38730	4.0	56014	5.5	4851	0.5	130375	13.7	-72850	-6.7
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	112106	103780	30	0.0	-8281	-8.8	-8326	-7.4	18545	27.4	17525	20.3
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1388403	1581741	-44768		-78176		193338		-310413		466705	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1362162	1559460	-30300		-84861		197297		-319159		457665	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	11418	-99935	86478		206705		-111353		192880		-260493	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-27049	-121917	83776		209845		-94868		203614		-271209	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5526072	5714171	21634	0.4	-74352	-1.4	188099	3.4	515260	11.1	547440	10.6
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	36632			200	0.6	0	0.0	3151	10.3	3000	8.9
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2126189	2322965	14807	0.6	-48417	-2.7	196776	9.3	140716	8.8	581248	33.4

*: 28 मार्च 2025 से संबंधित।

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	एसडीएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएसओ (एकमुस्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
अप्रैल 21, 2025	-	-	6332	-	879	87351	175	-	40000	-39965
अप्रैल 22, 2025	-	-	17892	-	413	91222	768	-	-	-72149
अप्रैल 23, 2025	-	-	18872	-	304	133629	1089	-	20000	-93364
अप्रैल 24, 2025	-	-	9634	-	323	146584	-	-	-	-136627
अप्रैल 25, 2025	-	-	6947	-	298	145006	-	-	-	-137761
अप्रैल 26, 2025	-	-	-	-	189	133722	-	-	-	-133533
अप्रैल 27, 2025	-	-	-	-	223	125923	-	-	-	-125700

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	फरवरी	मार्च	फरवरी	मार्च	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	185.8	185.8	192.5	192.0	-0.3	3.3	3.3
1.1 ग्रामीण	187.4	187.8	194.5	193.9	-0.3	3.2	3.2
1.2 शहरी	184.0	183.6	190.1	189.9	-0.1	3.4	3.4
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	139.2	138.9	142.8	143.0	0.1	3.0	3.0
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	151.2	151.4	154.8	154.5	-0.2	2.0	2.0
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	181.5	183.2	186.6	184.6	-1.1	0.8	0.8
3.2 ईंधन और बिजली	154.9	152.1	153.8	152.4	-0.9	0.2	0.2
3.3 विनिर्मित उत्पाद	139.8	140.1	143.8	144.4	0.4	3.1	3.1

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अप्रैल 04, 2025	522897	32046	6.45 - 8.05
अप्रैल 18, 2025	518760	7213	6.43 - 7.37

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अप्रैल 15, 2025	521558	91006	6.31 - 11.65
अप्रैल 30, 2025	545587	72419	6.26 - 13.00

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	अप्रैल 26, 2024	अप्रैल 18, 2025	अप्रैल 25, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	18120	22900	26638
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	1625	11120	2082
3 त्रिपक्षीय रेपो	628164	827215	706111
4 बाजार रेपो	570483	810602	626465
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	3178	6241	6915

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

अप्रैल 25, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	13756	23981	43217	199517
182-दिवसीय	43713	66918	8932	216232
364-दिवसीय	67854	85280	45879	355879
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (अप्रैल 25, 2025 तक)	2024-25 (अप्रैल 26, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (अप्रैल 25, 2025 तक)	2024-25 (अप्रैल 26, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	98000	92000	1400697	98000	92000	1039275
2. राज्य सरकारें	29170	36500	1073310	18390	18199	753345

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका (<https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/publications/a-handbook-on-rbi-s-weekly-statistical-supplement-15762>) में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://data.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

शरी जी. तव. नृए, , तनेशिक ा भारतीय रजव बैंक, शही भगतिसंह माग् , फोद् , मंबुई - 400 001 की ओर से संपातीएव प र्कातश हि।